

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16.11.2020

लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत पीस कमेटी की मीटिंग हुई संपन्न थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा त्यौहारो को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 16 नवंबर 2020 को श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में थाना परिसर त्रिलोकपुर में लक्ष्मी प्रतिमा के विसर्जन के संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। आयोजित मीटिंग में लक्ष्मी प्रतिमा के आयोजक/ संस्थापकगण, पत्रकार बंधु एवं क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति व थाना परिवार के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे तथा मीटिंग में प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर द्वारा लक्ष्मी प्रतिमा के विसर्जन के संबंध में शासन द्वारा दिए गए गाइडलाइंस/ कोविड-19 के दिशा निर्देशों को लोगों को बताया गया ॥

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16.11.2020

श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 16.11.2020 को शांति व्यवस्था बनाए रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व आगामी त्यौहार सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा 6 व्यक्तियों को अंतर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16.11.2020

श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक इटवा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 16.11.2020 को शांति व्यवस्था बनाए रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व आगामी त्यौहार सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत थाना इटवा पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16.11.2020

“वांछित अभियुक्त गिरफ्तार” थाना-इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर

के द्वारा “अपराध व अपराधियों” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री मायाराम वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व प्रभारी निरीक्षक श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में उ.नि. राजेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा आज दिनांक 16.11.2020 को मुखबीर के सूचना के आधार पर मु.अ.सं. 168/2020 धारा 376(D)A भा.द.वि व 3(2)V SC/ST Act व 5/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुस्तफा पुत्र बहरैची, सा. भदोखर, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को समय 10.30 बजे ग्राम भदोखर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का विवरण

मुस्तफा पुत्र बहरैची, सा. भदोखर, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. राजेन्द्र यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
2. का. सोमनाथ गुप्ता थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का. बेचन यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में यातायात कर्मचारियों द्वारा माह नवंबर यात्रा जागरूकता के दौरान उसका बांसी शोहरतगढ़ रोड पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने हेतु बताया गया तथा बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों को सीट बेल्ट धारण कर वाहन चलाने हेतु बताया गया साथ ही साथ दुर्घटना से बचाव हेतु जागरूकता प्रदान की गई पोस्टर पंपलेट का भी वितरण किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 16.11.2020 को उपनिरीक्षक किशोर लाल चौधरी मय हमराह का0 अवनीश राय के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 2 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

